



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 वैशाख 1946 (श10)
(सं0 पटना 399) पटना, सोमवार, 22 अप्रील 2024

सं० सं० 3/छा.1-01/2023-351
खेल विभाग

संकल्प

15 मार्च 2024

विषय:— बिहार के विभिन्न आयुवर्ग के एथलीटों के लिए दीर्घकालिक एथलीट विकास कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए "बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना, 2024" की स्वीकृति एवं इस पर प्रतिवर्ष अनुमानित ₹30,00,00,000.00 (तीस करोड़ रुपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना ज्ञापांक-मं0मं0-01/मंत्रिपरिषद्-01/2024-37, दिनांक-09.01.2024 द्वारा नए खेल विभाग (Department of Sports) का गठन किया गया है।

2. बिहार में एक मजबूत खेल परिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने हेतु बुनियादी स्तर से विशिष्ट स्तर तक के विभिन्न आयु वर्गों के एथलीटों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं को लागू किया जाना है। प्रत्येक खिलाड़ी को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जो 'दीर्घकालिक एथलीट विकास' के 24 खेल विधाओं में 03 स्तरों पर अर्थात् बुनियादी स्तर (Grassroots) में चयनित 500 खिलाड़ियों को प्रति वर्ष अधिकतम ₹3,00,000/- (तीन लाख हजार रुपये) मात्र प्रति खिलाड़ी, विकासात्मक स्तर (Developmental) में 200 खिलाड़ियों को प्रति वर्ष अधिकतम ₹5,00,000/- (पाँच लाख रुपये) मात्र प्रति खिलाड़ी और विशिष्ट स्तर (Elite) में 25 खिलाड़ियों को प्रति वर्ष अधिकतम ₹20,00,000/- (बीस लाख रुपये) मात्र प्रति खिलाड़ी को वित्तीय सहायता से संबंधित है। दीर्घकालिक एथलीट विकास के प्रत्येक स्तर पर खिलाड़ियों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर भी शामिल हैं।

3. उपर्युक्त का व्यय माँग संख्या-52 के अधीन बजट शीर्ष "2204- खेलकूद तथा युवा सेवाएँ-104-खेलकूद-0109-खेल कूद" विपत्र कोड-52-2204- 00-104-0109 के अंतर्गत विषय शीर्ष 3106-सहायता अनुदान-गैर वेतन उपबंधित राशि से होगा।

4. प्रस्ताव पर दिनांक-13.03.2024 को सम्पन्न बैठक में लोक वित्त समिति द्वारा स्वीकृत हेतु अनुशंसित किया गया है।
5. प्रस्ताव पर दिनांक-15.03.2024 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या-77 में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसधारण की जानकारी हेतु बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति सभी संबंधित विभाग/पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध करायी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० बी० राजेन्दर,
सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 399-571+100-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>